

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स ने कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का किया घेराव, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन

भिवानी, 26 अक्टूबर (हम)

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर यूनिन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यक्रम अधिकारी दीपिका बजाज के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर न्याय की मांग की। इसके बाद लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान मूर्ति बिजारणियां की। धरने को संबोधित करते हुए मूर्ति बिजारणियां ने कहा कि क्या सरकार को अपना तानाशाह रवैये को छोड़ कर बातचीत करके यूनिन की बैठक बुलाकर समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए। मंत्री एक महिला होते हुए महिलाओं की बात नहीं सुन रही इससे तो ऐसा लग रहा कि भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार है। आंगनवाड़ी का निजीकरण किया जा रहा है जिसका वे विरोध करते हैं। भिवानी ग्रामीण क्षेत्र खण्ड 2 का अप्रैल 2021 का हरियाणा सरकार का मानदेय आंगनवाड़ी महिलाओं के खाते में अब तक नहीं डाला गया है जो आज अधिकारी के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक 2018 में हुआ समझौते को लागू नहीं किया जाता, विभाग के निजीकरण बन्द नहीं किया जाता, पोषण ट्रैकर एप पर रोक नहीं लगाई जाती तब तक



भिवानी में मंगलवार को लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी करती आंगनवाड़ी महिलाएं।-हम

उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए वरना इसका हरजाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। **‘आंदोलन जारी रखेंगी महिलाएं’** **हिसार (हम)** : आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्परस यूनिन ने मंत्री से अपील की है कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्लेवे स्कूलों के नाम पर निजी एनजीओ को देने का फैसला तुरंत रद्द करें। इसके साथ ही यूनिन ने वर्ष 2018 में किया गया समझौता भी लागू करने की मांग की है। यूनिन का जिला प्रधान बिमला राठी ने आंगनवाड़ी महिलाओं के धरने को संबोधित किया। वहीं जिला सह सचिव सुशीला जांगड़ा ने कहा कि हमें विभाग द्वारा आंगनवाड़ी

कार्य के लिए रजिस्टर मुहैया नहीं करवाए जा रहे, हमें अपने स्तर पर रजिस्टर व अन्य सामग्री खरीदकर अपना रिकॉर्ड पूरा करना पड़ता है। हमारी सप्लाई राशन वितरण को कहीं भी उतार दिया जाता है जो हमें खुद किराया लगाकर तथा अन्य परेशानी के साथ वह राशन इधर-उधर से लाना पड़ता है। **क्रमिक अनशन शुरू** **जींद (हम)** : आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनिन की कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों के समर्थन में यहां लघुसचिवालय के बाहर दिया जा रहा धरना मंगलवार को 26वें दिन भी जारी रहा। धरने में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्परों यूनिन ने सरकार की बेरूखी के खिलाफ क्रमिक अनशन शुरू किया।



हिसार में मंगलवार को समझौता लागू करने की मांग के लिए लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी करती आंगनवाड़ी महिलाएं।-हम

‘किया जाये पक्का’

नारनौद(निस) : संविधान बचाओ मोर्चा के प्रवक्ता कृष्ण माजरा ने आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के धरने को समर्थन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को पक्का करें। इस मौके पर माजरा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। अगर दूसरी तरफ आज प्रदेश की बहन बेटियां अपने रोजगार के लिए धरने प्रदर्शन व सड़कों पर आने पर मजबूर है। यदि सरकार वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ काम कर रही है और अपने नारे को साकार कर रही हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को जल्द से जल्द पक्का करें नहीं तो संविधान बचाओ मोर्चा रौंड़ पर आ कर इनकी लड़ाई लड़ने पर मजबूर होगा।

फरीदाबाद (हम) : आंगनवाड़ी वर्करो और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मंगलवार को उपयुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीटीएम पुलकित मल्होत्रा

को सौंपा गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के सामने पार्क में एकत्रित हुईं। यहां पर हुई सभा की अध्यक्षता जिला प्रधान देवेन्द्र शर्मा ने की जबकि संचालन जिला सचिव मालवती ने किया।

बाल महोत्सव का सीमा त्रिखा ने किया शुभारंभ

होनहार बच्चे समाज को आगे ले जाने का रखते हैं जज्बा



फरीदाबाद में मंगलवार को मंडलस्तरिय बाल महोत्सव में विधायक सीमा त्रिखा स्वागत करने वाली बालिका को स्वयं तिलक लगाती हुईं।-हम

जिला बाल कल्याण परिषद ने एनआईटी स्थित बाल भवन मे मंडल स्तरीय बाल महोत्सव 2021 की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फरीदाबाद मंडल के तीनों जिलों फरीदाबाद, पलवल व नूंह के सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के विजेता (जिला स्तर पर) बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा ने किया। बाल महोत्सव 2021 के कार्यक्रम में मुख्य आए अतिथि व विशिष्ट अतिथि का जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शारु ने स्वागत किया। पहले दिन मंगलवार को समूह नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नूंह से वरिष्ठ समाजसेवी जीएस मलिक मौजूद थे। उन्होंने मुख्य अतिथि विधायक सीमा

त्रिखा का गुलदस्ता व लोक उद्यान के चेयरमैन आरोपी हंस ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वरिष्ठ समाजसेवी जीएस मलिक ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया। विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुति ने सभी के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने का कार्य किया है। सही मायनों में ऐसे होनहार बच्चे ही अपने माता-पिता समाज व देश को आगे ले जाने का जज्बा रखते हैं। ऐसे बच्चे ही समाज को संदेश व उनकी विचारधारा को बदलने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर कुम्भेदर यादव, सुरेखा डगार, सुंदरलाल खत्री, सुशील कनवा, श्रीपाल करहाना, कमला पांडे, आशा भारद्वाज, डॉ बलराम आर्य, बृज मोहन भारद्वाज, कवि देवेन्द्र कुमार, मीनू उपस्थित रहे।

नशीला पेय पिलाकर सहकर्मी से दुष्कर्मी

गुरुग्राम, 26 अक्टूबर (हम)

युवती ने अपने सहकर्मी पर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर दुष्कर्मी करने का आरोप लगाया है। पोंडित युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती कुछ समय पहले अपने सहकर्मी अमित से हुई थी। 25 अक्टूबर को अमित युवती से मिलने उसके घर पहुंच गया। आरोप है कि यहां उसने युवती को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिसके बाद उसे होश नहीं रहा। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। सेक्टर-40 थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोंडिता व आरोपी दोनों ही कंपनी में कार्यरत हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शादी का झंसा देकर दुष्कर्मी **वाही, 23 वर्षीय युवती ने सेक्टर 9ए थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी दोस्ती हेम सिंह के साथ हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी ने उसे शादी का झंसा देकर रेप किया। युवती का आरोप है कि अब आरोपी उससे शादी करने से इंकार कर रहा है। शादी का दबाव देने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।**

खबर है...

‘30 नवंबर तक ठीक हों सड़कों के गड्ढे’

नारनौल (निस) : जिला नगर आयुक्त डा. जेके आभीर ने मंगलवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नगर परिषद व पालिकाओं की सभी सड़कों के गड्ढों को ठीक करने के निर्देश दिये। जिला नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत 30 नवंबर 2021 से पहले जिले की सभी परिषद पालिकाओं की सड़कों के गड्ढों को ठीक करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास की सभी सड़कों पर होने वाले गड्ढों की शिकायतें नगर परिषद पालिकाओं में दर्ज करवाये।

बाल महोत्सव में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

गुरुग्राम (हम) : बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में चार दिवसीय मंडलस्तरिय बाल महोत्सव-2021 की शुरुआत धूमधाम से हुई। बाल महोत्सव का शुभारंभ सिविल लाइज स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में मंडल बाल कल्याण अधिकारी अमरनाथ नरवाल ने किया। महोत्सव के पहले दिन उपरोक्त तीनों जिलों में समूह नृत्य में प्रथम व द्वितीय स्थान, देशभारित से जुड़े समूह गान में चौथे स्थान व एकल नृत्य में प्रथम स्थान पर रहे विजेताओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

फरीदाबाद में कोरोना के तीन नये केस

फरीदाबाद (हम) :जिले में मंगलवार को कोरोना वायरस के तीन नये मामले सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को जिला में रिकवरी रेट भी 99.26 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कोरोना पोजिटिव का कोई केस अस्पताल में भर्ती नहीं है। जबकि होम आईसोलेशन पर जिला मे 23 लोगों को रखा गया है तथा एक्टिव केसों की संख्या भी 23 हो गई है।

अपहरण कर मांगी फिरोती, 2 काबू

गुरुग्राम (हम) : सब्जी विक्रेता का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरोती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक घंटे में ही सब्जी विक्रेता को बदमाशों के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट बंगाल का अकबर अली खांडसा मंडी में सब्जी बेचता है। सोमवार को दो बदमाश उसके घर में घुस आए और उसे अपनी बाइक पर बैठोकर खांडसा स्थित रिक्की के प्लॉट पर ले गए। यहां महान भी मौजूद था। वारों ने उस से 3 लाख रुपए की फिरोती मांगी। अकबर अली ने रुपए न होने की बात कही तो वारों ने उसे 10 हजार रुपए हर महीने देने के लिए कहा। साथ ही उसे तुरंत घर फोन कर रुपए मंगवाने के लिए कहा। अकबर अली ने अपनी पत्नी को फोन कर 10 हजार रुपये भिजवाने के लिए कहा, लेकिन अक्टूबर अली की पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से एक घंटे के अंदर ही अकबर अली को सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस की टीमों ने दो बदमाशों को मौके से ही काबू कर लिया। इनकी पहचान कपिल व धर्मबीर के तौर पर हुई है।

जीएम के खिलाफ रोडवेज कर्मियों ने दिया धरना

रोहतक (हम) :रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर महाप्रबंधक के खिलाफ नया बस स्टैंड पर जीएम कार्यालय के पास धरना दिया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिए गए धरने की अध्यक्षता संयुक्त संघर्ष समिति के सभी डिवो प्रधानों हिम्मत राणा, नरेश दावत, सुमेश कुंडू, सुरेंद्र बेनीवाल, जोगिंदर डूल, जोगिंदर मलिक वालक ने की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग मुद्दे में डिवो में सरकारी आदेशों अनुसार 1.तारिख को वेतन दिया जाए। सभी कर्मचारियों से वरिष्ठता के आधार पर पदों के अनुरूप कार्य लिया जाये।

फायरिंग कर शराब के ठेके से लूटे 40 हजार

गुरुग्राम (हम) : शराब खरीदने के बहाने आए हथियारबंद बदमाशों ने शाम एक वाइन शॉप से करीब 40 हजार रुपये लूट लिए। सदर बाजार के मुहाने पर सोहना चौक के पास एक वाइन शॉप पर एक युवक शराब खरीदने पहुंचा। जब कर्मचारी उसे शराब देने के लिए रैक की ओर मुड़ा तो वह युवक दुकान के अंदर घुसकर काउंटर में रखा कैश निकालने लग। उसे ऐसा करते देख कर्मचारी ने विरोध किया तो उसके तीन और साथी मौके पर पहुंच गए। इनमें से दो के हाथ में पिस्तौल थी। इन्होंने पिस्तौल कर्मचारियों की ओर तान दी तथा गोली मारने की धमकी देते हुए लूटपाट करते रहे। इस बीच बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। वे मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।

गुम मोबाइल से धमकी देने वाला गिरफ्तार

गुरुग्राम (हम) : सोसायटी में कार साफ करके पेट पालने वाले श्रमिकों को प्रति कार के डिसाब से डिसावा देने के लिए बाध्य करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह तीन साल पहले गुम हुए किसी और के मोबाइल से फोन करके पैसा नहीं देने पर मजदूरों के हाथ पर तोड़ने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने बार गुर्जर गांव के रहने वाले गौरव उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। गौरव सेक्टर-67 स्थित सोसायटी में कार साफ करने वाले श्रमिकों से पैसे मांग रहा था।

जन परिवाद समिति की बैठक में 13 शिकायतें निपटाईं

पलवल, 26 अक्टूबर(हम)

सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने मंगलवार को कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संघर्ष एवं परिवार समिति की बैठक में आई 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया। उन्होंने दी पलवल सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र 2021-22 का केन में गन्ना डालकर शुभारम्भ किया। इसके अलावा लखे रोड पर धर्म प्लाजा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा के प्रदेश सह-संयोजक पवन अग्रवाल द्वारा खोले गए ई स्टोर इंडिया का रिबन काटकर जनता को समर्पित किया। इस दौरान पलवल के विधायक दीपक मंगला, हथीन के विधायक प्रवीण डगार, पूर्व विधायक रामरतन, भाजपा के जिलाध्यक्ष चरण तेवतिया, उपायुक्त कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, एसडीएम वैशाली सिंह, नगरधीश अंकिता अधिकारी तथा अधिकारीगण मौजूद थे।

मुख्य पेयजल लाइन की होगी शिफ्टिंग

8 लाख लोगों को 2 दिन नहीं मिलेगा पानी

गुरुग्राम, 26 अक्टूबर (हम)

शहरी आवादी के एक बड़े हिस्से में दो दिन पानी की किल्लत रहेगी। मुख्य पेयजल लाइन शिफ्टिंग के कारण नगर निगम दो दिन तक करीब 8 लाख लोगों तक पानी की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। संबंधित क्षेत्र के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था व पानी के कम से कम इस्तेमाल की सूचना दे दी गई है। केपजल आपूर्ति बाधित होने का कारण बसई चैक पर बन रहा फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में एक अंडरग्राउंड पानी की लाइन बाधा बन रही है। इस मुख्य लाइन से गांव चंद्र, बुढ़ेड़ा, धनकोट, सेक्टर-37 सी व डी, गाडौली, एयरफोर्स स्टेशन, सेंट्रल पार्क, सेक्टर-51 बृस्टिंग स्टेशन, सेक्टर-44 से 74, डीएलएफ फेज-5, फेज-1 में पेयजल आपूर्ति होती है। अब लाइन शिफ्टिंग के चलते इन क्षेत्र में

पानी के कम इस्तेमाल की गुजारिश

जीएमडी के चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार ने बताया कि लाइन शिफ्ट किए जाने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल आपूर्ति बंद होगी। उनके अनुसार जिन क्षेत्रों में पानी आपूर्ति बाधित रहेगी वहां के लोगों को इसकी सूचना देकर वैकल्पिक व्यवस्था रखने व पानी के कम इस्तेमाल की गुजारिश की गई है। जीएमडी द्वारा किए जाने वाले इस कार्य से करीब 8 लाख लोगों को दो दिन पानी नहीं मिल पाएगा।

मंगलवार की रात से आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। बुधवार व बुधस्तिवार को लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार सुबह तक लाइन पुनः चालू कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

‘बाल शोषण के खिलाफ जागरुकता जरूरी’

नारनौल, 26 अक्टूबर (निस)

जिला बाल संरक्षण ईकाई की ओर से आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला सैदपुर व राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिहाल में बच्चों व महिलाओं को पोक्सो एक्ट के बारे में जागरुक करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला बाल संरक्षण ईकाई से बाल संरक्षण अधिकारी सुष्मा यादव व मनोज यादव ने जागरुकता कैम्प में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल अपराध, अपहरण व यौन शोषण जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को सचेत, समझदार व जागरुक होना पड़ेगा तथा अपने पराये की पहचान करनी होगी।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public, at large, as an abundant precaution, that a Civil Suit No. 1887 of 2015, titled Smt. Shakuntala Banta w/o late Shri Ajit Lal Banta and Mother of late Shri Pankaj Mohan Banta Versus Aruna Gautam, is pending in the Court of Shri Puneet Mohinia, Civil Judge, Junior Division, Chandigarh, now fixed for hearing on 09.11.2021 for further proceedings. As such, all the properties involved in the litigation, pertaining to the ownership and inheritance, located anywhere, including the Plot No. 317, Sector 4, Panchkula, Haryana, as well as the Plot No. 814, Sector 8, Panchkula, Haryana, under the control of HUDA, are under litigation, wherein objections have been filed by the legal heirs of late Smt. Shakuntala Banta, against any kind of transfer of the said property, to any one, ispendens. Therefore, any one purchasing the said property or alienating it to any one in any manner whatsoever, will be doing so, at his/her own risk, as to the Criminal/Civil liability, costs and consequences, which may please be noted. A complaint with the CM Window to the effect has also been filed on 05.10.2021 for appropriate relief. (Rajendra Nath Datt) Advocate

PUBLIC NOTICE

Notice inviting objection/suggestion for approval of additional/revise building plans of Affordable Group Housing Colony measuring 11.36388 acres (Licence No. 75 of 2019 dated 23.07.2019 (7.70486 acres) and Licence No. 31 of 2021 dated 30.06.2021 (3.65902 acres)), Sector-37, Bahadurgarh, District Jhajjar being developed by HL Residency (Proprietorship firm) through Prop. Shailaja having its address at Shop No. 8, Commercial Complex, Sector-37, Bahadurgarh And wherea, in pursuance of the Memo No. ZP-1341/JD(RD)/ 2021/27457 Dated 26-10-2021 by the office of Town & Counrly Planning Department, Haryana, Developer is required to invite objections from existing allottee regarding the said amendments in the building plan through an advertisement to be issued at least in 3 National newspapers widely circulated in District. Accordingly, with this public notice objections are hereby invited from any of the existing allottees in the said colony on the proposed revision of the building plans of the said colony. Proposed building are available for perusal at website link www.hcity.in. The said building plans can also be perused at the office of Developer at Shop No. 8, Commercial Complex, Sector-37, Bahadurgarh as well as in the office of and District Town Planner, Jhajjar and Senior Town Planner, Rohtak. Any allottee having any objection / suggestion on additional/ revise building plans, may submit in the office of District Town Planner, Jhajjar or Senior Town Planner, Rohtak or in office of developer within a period of 30days from date of publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections/ suggestions to the proposed revision in the building plans. Dated: 26.10.2021 For M/s HL Residency Place: Bahadurgarh Proprietorship Firm

बर्खास्त पीटीआई को बहाल करने की मांग

भिवानी, 26 अक्टूबर (हम)

दो वर्षों से अपनी बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे बर्खास्त पीटीआई को बरगलाने की बजाये उन्हें बहालकर प्रदेश सरकार उन्हें भूखा मरने से बचना चाहिए। यह बात लघु सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मा. सुखदर्शन सरोहा ने कही। बर्खास्त

पीटीआई का धरना मंगलवार को 498वें दिन भी जारी है। मा. सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली के चलते आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग सड़कों पर है।

PUBLIC NOTICE

I, Dr. Surinder Kaur Bual, w/o Late S. Sikander Singh, permanent r/o Nasirpur Farm, PO Punjabi University, Patiala, do hereby declare that I am the sole and absolute owner of agricultural property situated in Village Sultanpur, GT Road, District Amritsar - the particulars of which, as per Revenue records, are as follows: Khasra Nos. 1747 (10-12), 1748 (13-10), 1752 (0-16), 1751 (8-3), 1754 (3-0), 4182/1754 (1-8), 1755 (4-6), 1756 (6-19), 4181/1743/2 (2-1), 4180/1743/1 (5-17), 1757 (6-19), 1744 (6-19) 1746 (2-13), 4183/1754/2 (3-0) I have not executed any General Power of Attorney, with reference to the above listed Khasra Nos., in favour of any person. No person is authorised to act on my behalf with regards to the above listed Khasra Nos. If any such document is presented, then I hereby declare that such document stands revoked and cancelled. Anyone relying on any General Power of Attorney to do any transaction regarding the above land filed be doing so at their sole risk. No such transaction would be authorised by me.

Notices is hereby given to the General Public, at large, as an abundant precaution, that a Civil Suit No. 1887 of 2015, titled Smt. Shakuntala Banta w/o late Shri Ajit Lal Banta and Mother of late Shri Pankaj Mohan Banta Versus Aruna Gautam, is pending in the Court of Shri Puneet Mohinia, Civil Judge, Junior Division, Chandigarh, now fixed for hearing on 09.11.2021 for further proceedings. As such, all the properties involved in the litigation, pertaining to the ownership and inheritance, located anywhere, including the Plot No. 317, Sector 4, Panchkula, Haryana, as well as the Plot No. 814, Sector 8, Panchkula, Haryana, under the control of HUDA, are under litigation, wherein objections have been filed by the legal heirs of late Smt. Shakuntala Banta, against any kind of transfer of the said property, to any one, ispendens. Therefore, any one purchasing the said property or alienating it to any one in any manner whatsoever, will be doing so, at his/her own risk, as to the Criminal/Civil liability, costs and consequences, which may please be noted. A complaint with the CM Window to the effect has also been filed on 05.10.2021 for appropriate relief. (Rajendra Nath Datt) Advocate

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रैड क्रॉस समिति एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा की 34वें वार्षिक आम बैठक जॉकि 26 अक्टूबर, 2021 को श्री ब्रह्मदत्त दत्तत्रेय, माननीय राज्यपाल हरियाणा एवं अध्यक्ष, भारतीय रैड क्रॉस समिति एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में होनी सुनिश्चित हुई थी, वह बैठक अब 16 नवंबर, 2021 को 12.30 बजे के लिए पुनर्निर्धारित की गयी है।

महासचिव, भारतीय रैड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चंडीगढ़

DI-14027

MAMARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION
(A State University Established Under Haryana Act No. XXV of 1975)
NAAC 'A+' Grade Accredited University

Admission Notice (Adv. PR No. 12 of 2021)
DEB-UGC Approved Programmes

Online applications are invited for admission to the following Programmes for the Academic Session July, 2021-22 (revised as November, 2021):-

A. Open and Distance Learning Mode Programmes

Sr. No.	Name of Programmes
1.	Bachelor of Arts i) First Year (1st & 2nd Semester) ii) Second Year (3rd & 4th Semester) iii) Third Year (Annual Mode)
2.	Bachelor of Commerce i) First Year (1st & 2nd Semester) ii) Second Year (3rd & 4th Semester) iii) Third Year (Annual Mode)
3.	Master of Arts (First Year-1st & 2nd Semester) and (Second Year-3rd & 4th Semester): (1) Hindi (2) English (3) Sanskrit (4) Political Science (5) Public Administration (6) Economics
4.	Master of Arts (First Year-1st & 2nd Semester) (1) History (2) Journalism & Mass Communication
5.	Master of Arts (History) Annual Mode (Final Year - Registered during the Academic Session 2017-18)
6.	Master of Library & Information Science (First Year-1st & 2nd Semester)
7.	Master of Commerce (First Year-1st & 2nd Semester) and (Second Year- 3rd & 4th Semester)
8.	Master of Science in Mathematics (First year-1st & 2nd Semester) and (Second Year -3rd & 4th Semester)

B. Online Mode Programmes

Sr. No.	Name of Programmes
1.	Master of Science in Mathematics (First Year-1st & 2nd Semester)
2.	Master of Commerce (First Year-1st & 2nd Semester)

Admission Schedule	Date
Last date for submission of online application (without late fee)	15.11.2021
Last date for submission of online application (with late fee RS. 500/-)	25.11.2021
Last date for submission of online application (with late fee Rs. 1,000/-)	06.12.2021
Last date for submission of online application (with late fee Rs. 1,500/-)	15.12.2021

Visit University Website (www.mdu.ac.in) for Online Admission and Information Brochure

PRDH-1235/11/21/2022/5356/11/6 **DIRECTOR (DDE)**

Municipal Corporation
Near Fountain Chowk, Railway Road
YamunaNagar (Haryana) – 135001
☎ 91-1732-260227, 237841

www.mcynr.com mc.yamunanagar@gmail.com ☎ 95-95-130-130 70824-10824

सभी आम/खस को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, यमुनानगर-जगधरों को खाली दुकानों को किराये पर देने हेतु खुली बोली निम्न कार्यक्रम अनुसार की जानी है :

क्र. सं.	मार्किट का नाम	दुकान नं.	निर्जित प्राइस	ब्यान्डर राशि	निर्जित व समय	स्थान
1.	वर्कशाप रोड	54 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
2.	वर्कशाप रोड	57 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
3.	वर्कशाप रोड	58 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
4.	वर्कशाप रोड	62 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
5.	वर्कशाप रोड	63 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
6.	वर्कशाप रोड	64 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:00 बजे	दुकान नं. 122, वर्कशाप रोड, य. नगर
7.	वर्कशाप रोड	65 प्रथम मंजिल	₹. 2880/-	₹. 50,000/-	08.11.2021 सुबह 11:0	